

2023 बीसी किशोर स्वास्थ्य सर्वेक्षण: अभिभावक अधिसूचना पत्र

प्रिय माता-पिता/अभिभावक,

मैकक्रीरी सेंटर सोसाइटी एक बीसी आधारित चैरिटी है जो हर पांच साल में बीसी किशोर स्वास्थ्य सर्वेक्षण करती है। सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग आपके समुदाय और पूरे बीसी में युवाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए किया जाता है। स्कूल, सरकार और समुदाय कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए जानकारी का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण के लिए फंड बीसी सरकार द्वारा दिया गया है।

आपके बच्चे की कक्षा को इस युवा स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हम ग्रेड 7-12 में 30,000 से अधिक ब्रिटिश कोलंबिया छात्रों को भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सर्वेक्षण में अधिकांश छात्रों को 30-45 मिनट लगते हैं। छात्र सर्वेक्षण को या तो कागज पर या ऑनलाइन भरेंगे। एक नर्स द्वारा सर्वेक्षण या सर्वेक्षण के लिए एक लिंक दिया जाएगा।

सर्वेक्षण पर प्रश्न स्कूल, समुदाय और आपके बच्चे के जीवन में लोगों; शारीरिक, मानसिक और यौन स्वास्थ्य; चोटें; हिंसा और भेदभाव; शराब और अन्य पदार्थों का उपयोग; फुरसत की गतिविधियां; तकनीकी; सोना; और पोषण के बारे में पूछते हैं। कुछ प्रश्न COVID-19 से संबंधित हैं।

आपका बच्चा यह चुन सकता है कि भाग लेना है या नहीं, वे उन सवालियों को छोड़ सकते हैं जिनका वे जवाब नहीं देना चाहते हैं, और किसी भी समय सर्वेक्षण बंद कर सकते हैं। जो छात्र भाग नहीं लेने का चुनाव करते हैं उन्हें कक्षा शिक्षक द्वारा एक अन्य गतिविधि सौंपी जाएगी। नर्स द्वारा स्कूल में स्थापित COVID सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा।

सर्वेक्षण गोपनीय है

सर्वेक्षण गोपनीय और गुमनाम है। कोई नाम दर्ज नहीं किए जाते हैं। प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने से पहले किसी भी संभावित पहचान करने वाली जानकारी को सर्वेक्षण से हटा दिया जाएगा। कोई भी उत्तरों को किसी छात्र विशेष से जोड़ नहीं पाएगा। हालांकि, यदि छात्र सर्वेक्षण में अपना नाम डालने का चुनाव करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था या वे आत्महत्या या किसी को चोट पहुँचाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें उपयुक्त बाल कल्याण एजेंसियों को इसकी रिपोर्ट करनी होगी।

केवल मैकक्रीरी सेंटर सोसाइटी और UBC से जुड़े प्रशिक्षित शोधकर्ताओं के पास सर्वेक्षणों तक पहुंच होगी। सभी मूल सर्वेक्षण प्रतियाँ (कागजी और ऑनलाइन) 5 वर्षों के लिए मैकक्रीरी में और कनाडा में पासवर्ड संरक्षित कंप्यूटरों पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत की जाएंगी और फिर नष्ट कर दी जाएंगी। सर्वेक्षण के जवाबों को भविष्य में उपयोग के लिए मैकक्रीरी में पासवर्ड संरक्षित कंप्यूटरों पर सुरक्षित डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है। सर्वेक्षण के परिणामों की रिपोर्टें और तथ्य पत्रक www.mcs.bc.ca पर पोस्ट किए जाएंगे।


जोखिम और लाभ

भाग लेने से आपको या आपके बच्चे को सीधे तौर पर लाभ नहीं होगा। यदि वे भाग लेते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सेवाओं और कार्यक्रमों के नियोजन में युवाओं की राय हो और जहां ज़रूरत हो वहां बदलाव लाने में मदद करेंगे। इस बात का खतरा हो सकता है कि कोई अन्य छात्र आपके बच्चे के जवाबों को ताक-झांक कर रहा हो, या उन्हें कुछ प्रश्न संवेदनशील लग सकते हैं और वे थोड़ी परेशानी या तनाव महसूस कर सकते हैं। छात्रों के किसी भी प्रश्न या चिंता का जवाब देने के लिए नर्स उपलब्ध होगी। छात्रों को सहायता सेवाओं के लिए संपर्क जानकारी के साथ एक कार्ड भी दिया जाता है।

यदि आपको या आपके बच्चे को एक शोध प्रतिभागी के रूप में अपने अधिकारों और/या इस अध्ययन में भाग लेने के दौरान अपने अनुभवों के बारे में कोई चिंता या शिकायत है, तो UBC ऑफिस ऑफ रिसर्च एथिक्स में रिसर्च भागीदार शिकायत लाइन से 604-822-8598 पर या यदि यह लंबी दूरी की कॉल हो तो ईमेल द्वारा RSIL@ors.ubc.ca पर संपर्क करें या टोल फ्री 1-877-822-8598 पर कॉल करें।

कुछ छात्रों को भाग लेने का निर्णय लेने में माता-पिता/अभिभावक के मार्गदर्शन से लाभ हो सकता है। यदि आप सर्वेक्षण या मैकक्रिरी सेंटर सोसाइटी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट (www.mcs.bc.ca) पर जा सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न, चिंता या शिकायत है, तो आप नीचे दिए गए पते पर एनी स्मिथ (Annie Smith) से भी संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय,



डॉक्टर एनी स्मिथ (Dr. Annie Smith)
एकज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, मैकक्रिरी सेंटर सोसायटी
सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ नर्सिंग,
ब्रिटिश कोलंबिया युनिवर्सिटी
annie@mcs.bc.ca
604-291-1996 एक्सटेन्शन 225



डॉक्टर एलिजाबेथ सैविक (Dr. Elizabeth Saewyc)
प्रतिष्ठित युनिवर्सिटी प्रोफेसर, स्कूल ऑफ नर्सिंग, ब्रिटिश
कोलंबिया युनिवर्सिटी
रिसर्च डायरेक्टर, मैकक्रिरी सेंटर सोसायटी
esaewyc@mcs.bc.ca
604-291-1996 एक्सटेन्शन 223

*डॉक्टर सैविक के पास कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ
रिसर्च (CIHR) और कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी से
अनुदान है जो अध्ययन में उनकी भूमिका का समर्थन
करते हैं।*